

प्रेस नोट दिनांक 24.11.2020 जनपद मेरठ

जनपद - मेरठ

पीआरवी – 3778

सराहनीय कार्य का विवरण



जनपद मेरठ में संचालित पीआरवी 3778 थाना परतापुर क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 23.11.2020 को समय करीब 17:13 बजे इन्वेट न0 P23112008006 घटनास्थल शताब्दीनगर कैलाशी डेरी के पास कॉलर अज्ञात ने मो0न0 9899197164 से सूचना दी कि एक टीन के बैग में कोई बच्चा फेंक कर चला गया है बच्चा अभी का पैदा हुआ है।

कृत कार्यवाही का विवरण:- पीआरवी कर्मि सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पहुँचे और कॉलर से सम्पर्क किया तो कॉलर ने बताया कि कैलाशी डेरी के पीछे से बच्चे के रोने के आवाज आ रही थी मैंने पीछे की तरफ जाकर देखा तो कूड़े के ढेर पर कुछ प्लास्टिक के कट्टे पड़े हुये है जिन कट्टों में से किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज आ रही थी। पीआरवी कर्मियों ने कॉलर को अपने साथ लेकर मौके पर पहुँच कर तुरन्त प्लास्टिक के कट्टे को खोलकर देखा तो उसके अन्दर एक नवजात शिशु था जिसकी सांसे चल रही

थी जो रो रहा था जो हम पीआरवी कर्मियों ने तुरन्त बिना किसी विलम्ब के नवजात शिशु को अपनी संरक्षा में लेकर तत्काल प्यारे लाल अस्पताल के जच्चा-बच्चा केन्द्र में भर्ती कराया जहां डाक्टरों द्वारा नवजात बच्ची का उपचार चल रहा है। आस-पास नवजात बच्ची के बारे में जानकारी की गयी तो कोई जानकारी प्राप्त न हो सकी। नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा कर स्थानीय थाना परतापुर को अवगत कराया गया तथा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा मेवला फलाईओवर से अभियुक्त इमरान उर्फ मानू पुत्र नन्हें खॉ नि0 यासीन वाली गली तारापुरी थाना लिसाडीगेट मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूश 315 बोर बरामद होना। अभियुक्त के विरुद्ध थाना ब्रह्मपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब सहित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कंकरखेडा पुलिस द्वारा शोभापुर के आश्रम के पास से अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र हरि सिंह नि0 डाबका थाना कंकरखेडा मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 56 पब्बा शराब हरियाणा मार्का बरामद होना। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कंकरखेडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

अवैध सट्टे की खाईबाडी करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कंकरखेडा पुलिस द्वारा तिलक चौक से अभियुक्त रोहित पुत्र पप्पू नि0 लाला मौहम्मदपुर थाना कंकरखेडा मेरठ को सट्टे की खाईबाडी करते पकडा जाना जिसके कब्जे से 1020 रुपये नगद, एक कॉपी व पेन्सिल बरामद होना। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कंकरखेडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना कंकरखेडा पुलिस द्वारा मेंहदी मौहल्ला कंकरखेडा से अभियुक्त राजेश पुत्र रूपेन्द्र कुमार नि0 226 मेंहदी मौहल्ला कंकरखेडा थाना कंकरखेडा मेरठ को सट्टे की खाईबाडी करते पकडा जाना जिसके कब्जे से 870 रुपये नगद, एक कॉपी व पेन्सिल बरामद होना। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कंकरखेडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कंकरखेडा पुलिस द्वारा वैष्णों ढाबा के पास कंकरखेडा से अभियुक्तगण 1. उमेश पुत्र भरतू नि0 दायमपुर थाना कंकरखेडा मेरठ, 2. भारत पुत्र राजकुमार नि0 रवासा थाना दौराला मेरठ, 3. मोहित पुत्र नथुआ नि0 दायमपुर थाना कंकरखेडा मेरठ द्वारा तास के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते पकडे जाना जिनके कब्जे से 270 रुपये नगद व 52 पत्ते तास बरामद होना। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कंकरखेडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।